



25 FEB 1978

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I
PART I—Section I

प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39]

No. 39]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 16, 1978/माघ 27, 1899

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 16, 1978/MAGHA 27, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(अप्रत्यक्ष कर प्रभाग)

नई दिल्ली, 16 फरवरी 1978

सार्वजनिक सूचनाएं

सं० प्रतिप्रदायगी/सा०सू० 10/78.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिप्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथासंशोधित, सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रदायगी/सा०सू० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा संशोधन करती है :—

उप-क्रमांक 2426 के सामने मंत्र (1), (2) और (3) में प्रकाशित "निर्यात के लिए सीमेंट पैक करने के लिए" शब्दों के स्थान पर "निर्यात हेतु सीमेंट पैक करने के लिए अथवा फालतू के रूप में सफाई किये गये खाली" शब्द रखे जाएंगे।

यह सार्वजनिक सूचना जनवरी, 1977 के पहले दिन को लागू हुई मानी जाएगी।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(Indirect Taxes Division)

New Delhi, the 16th February, 1978

PUBLIC NOTICES

No. DRAWBACK/PN-10/78.—Under Rule 4. of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971

329 GI/77

(Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRA-WBACK/PN-I dated the 15th October, 1971, as amended from time to time :—

For the words "for packing cement for exports", appearing against items (1), (2) and (3) against sub-serial No. 2426 read "for packing cement for exports or supplied empty as spares", shall be added.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1977.

सं० प्रतिप्रदायगी/सा०सू० 11/78.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिप्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथासंशोधित, सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रदायगी/सा०सू० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रमांक 102 से 118 और तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

उप-क्रमांक	माल का विवरण	प्रतिप्रदायगी का दर
1	2	3
102.	कलों को चटनी जिसमें भार के आधार पर बीती 50 प्रतिशत से कम न हो।	ऐसे माल का प्रति क्विंटल 10.62 रु० (केवल दस रुपये बासठ पैसे)।

1	2	3
103. जैम और जेली जिनमें भार के आधार पर चीनी 60 प्रतिशत से कम न हो।	ऐसे माल का प्रति बिंदल 12.75 रु० (केवल बारह रुपये पचहत्तर पैसे)।	
104. डिब्बा बन्द सिरप सहित फल जिनमें:— (क) भार के आधार पर चीनी 16% से कम न हो। (ख) भार के आधार पर चीनी 16% से कम हों परन्तु 13.5% से कम न हो।	ऐसे माल का प्रति बिंदल 3.40 रु० (केवल तीन रुपये चालीस पैसे)। ऐसे माल का प्रति बिंदल 2.87 रु० (केवल दो रुपये सत्तासी पैसे)। ऐसे माल का प्रति बिंदल 13.81 रु० (केवल तेरह रुपये इक्यासी पैसे)।	
105. म्बवेश जिनमें भार के आधार पर चीनी 40% से कम न हो।	ऐसे माल का प्रति बिंदल 8.50 रु० (केवल आठ रुपये पचास पैसे)।	
106. फलों के सिरप सहित फल सिरप और शर्बत जिनमें भार के आधार पर चीनी 65% से कम न हो।	ऐसे माल का प्रति बिंदल 13.81 रु० (केवल तेरह रुपये इक्यासी पैसे)।	
107. फ्रूट कार्डियल जिनमें भार के आधार पर चीनी 30% से कम न हो।	ऐसे माल का प्रति बिंदल 6.37 रु० (केवल छः रुपये सत्तीस पैसे)।	
108. जैमन बालि-वाटर सहित बालि वाटर जिनमें भार के आधार पर चीनी 40% से कम न हो।	ऐसे माल का प्रति बिंदल 8.50 रु० (केवल आठ रुपये पचास पैसे)।	
109. फ्रूट कष जिनमें भार के आधार पर चीनी 55% से कम न हो।	ऐसे माल का प्रति बिंदल 11.68 रु० (केवल ग्यारह रुपये अड़सठ पैसे)।	
110. मार्मलेड्स जिनमें भार के आधार पर चीनी 60% से कम न हो।	ऐसे माल का प्रति बिंदल 12.75 रु० (केवल बारह रुपये पचहत्तर पैसे)।	
111. कर्दिन और केनामित अथवा बनेट्स फन और छिलका जिनमें भार के आधार पर चीनी 60% से कम न हो।	ऐसे माल का प्रति बिंदल 12.75 रु० (केवल बारह रुपये पचहत्तर पैसे)।	
112. आम का गुदा जिनमें:— (क) भार के आधार पर चीनी 5% से कम न हो। (ख) भार के आधार पर चीनी 5% से कम हों परन्तु 3% से कम न हो।	ऐसे माल का प्रति बिंदल 1.06 रु० (केवल एक रुपया छः पैसे)। ऐसे माल का प्रति बिंदल 0.64 रु० (केवल चौसठ पैसे)।	
113. परिवर्धित फल जिनमें भार के आधार पर चीनी 60 प्रतिशत से कम न हो।	ऐसे माल का प्रति बिंदल 12.75 रु० (केवल बारह रुपये पचहत्तर पैसे)।	
114. मोठा किये हुए फलों के रस (डिब्बा बंद या बोतल बंद) जिनमें भार के आधार पर चीनी 10% से कम न हो।	ऐसे माल का प्रति बिंदल 2.12 रु० (केवल दो रुपये बारह पैसे)।	
115. आम का रस (नेक्टर) (परोसे जाने के लिए तैयार पेय) जिसमें भार के	ऐसे माल का प्रति बिंदल 3.18 रु० (केवल तीन रुपये अठारह पैसे)।	

1	2	3
	आधार पर चीनी 15% से कम न हो।	
116. पपीता का रस (नेक्टर) (परोसे जाने के लिए तैयार पेय) जिसमें भार के आधार पर चीनी 15% से कम न हो।	ऐसे माल का प्रति बिंदल 3.18 रु० (केवल तीन रुपये अठारह पैसे)।	
117. अमरुद का रस (नेक्टर) (परोसे जाने के लिए तैयार पेय) जिसमें भार के आधार पर चीनी 15% से कम न हो।	ऐसे माल का प्रति बिंदल 3.18 रु० (केवल तीन रुपये अठारह पैसे)।	
118. अंगूर का रस (नेक्टर) (परोसे जाने के लिए तैयार पेय) जिसमें भार के आधार पर चीनी 15% से कम न हो।	ऐसे माल का प्रति बिंदल 3.18 रु० (केवल तीन रुपये अठारह पैसे)।	
(परन्तु यह तब जब कि उपर्युक्त फल उत्पाद, फल उत्पाद आदेश, 1955 के उपबन्धों के अनुसार तैयार किये गये हों)।		

No. DRAWBACK/PN-11/78 :—Under Rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extra-ordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971, as amended from time to time :—

For sub-serial Nos. 102 to 118 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

Sub. S. No.	Description of goods	Rate of drawback
102	Fruit chutney containing not less than 50% of sugar by weight.	Rs. 10.62 (Rupees ten and paise sixty two only) per quintal of such goods.
103	Jams and Jellies containing not less than 60% of sugar by weight.	Rs. 12.75 (Rupees twelve and paise seventy five only) per quintal of such goods.
104	Canned fruit in syrup containing— (a) not less than 16% of sugar by weight. (b) less than 16% but not less than 13.5% of sugar by weight.	Rs. 3.40 (Rupees three and paise forty only) per quintal of such goods. Rs. 2.87 (Rupees two and paise eighty seven only) per quintal of such goods.
105	Squashes containing not less than 40% of sugar by weight.	Rs. 8.50 (Rupees eight and paise fifty only) per quintal of such goods.
106	Fruit syrups, synthetic syrups and sharbats containing not less than 65% of sugar by weight.	Rs. 13.81 (Rupees thirteen and paise eighty one only) per quintal of such goods.
107	Fruit cardials containing not less than 30% of sugar by weight.	Rs. 6.37 (Rupees six and paise thirty seven only) per quintal of such goods.
108	Barley waters including lemon barley water containing not less than 40% of sugar by weight.	Rs. 8.50 (Rupees eight and paise fifty only) per quintal of such goods.

1	2	3
109 Fruit crushes containing not less than 55% of sugar by weight.	Rs. 11.68 (Rupees eleven and paise sixty eight only) per quintal of such goods.	
110 Marmalades containing not less than 60% of sugar by weight.	Rs. 12.75 (Rupees twelve and paise seventy five only) per quintal of such goods.	
111 Candies and crystalised or glazed fruit and peel containing not less than 60% of sugar by weight.	Rs. 12.75 (Rupees twelve and paise seventy five only) per quintal of such goods.	
112 Mango pulp containing —		
(a) not less than 5% of sugar by weight.	Rs. 1.06 (Rupee one and paise six only) per quintal of such goods.	
(b) less than 5% but not less than 3% of sugar by weight.	Rs. 0.64 (Paise sixty four only) per quintal of such goods.	
113 Fruit preserves containing not less than 60% of sugar by weight.	Rs. 12.75 (Rupees twelve and paise seventy five only) per quintal of such goods.	
114 Sweetened fruit juices (canned or bottled) containing not less than 10% of sugar by weight.	Rs. 2.12 (Rupees two and paise twelve only) per quintal of such goods.	
115 Mango Nectar (Ready to serve beverages) containing not less than 15% of sugar by weight.	Rs. 3.18 (Rupees three and paise eighteen only) per quintal of such goods.	
116 Papaya Nectar (Ready to serve beverages) containing not less than 15% of sugar by weight.	Rs. 3.18 (Rupees three and paise eighteen only) per quintal of such goods.	
117 Guava Nectar (Ready to serve beverages) containing not less than 15% of sugar by weight.	Rs. 3.18 (Rupees three and paise eighteen only) per quintal of such goods.	
118 Grape Nectar (Ready to serve beverages) containing not less than 15% of sugar by weight.	Rs. 3.18 (Rupees three and paise eighteen only) per quintal of such goods.	

(Provided the above Fruit Products have been manufactured in accordance with the provisions of the Fruit Products Order, 1955).

सं० प्रतिप्रदायगी/सा० सं० 12/78 :—सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिप्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, प्रसाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर यथासंशोधित, सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रदायगी/सा० सू० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप-क्रम 3804 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

उप-क्रम	मात्रा का विवरण	प्रतिप्रदायगी की दर
1	2	3
3804	स्टेनलैस स्टील से बनी वस्तुएं—	
	(क) (i) पूर्णतया अचुम्बकीय स्टेनलैस स्टील की 18 से 21 बी० जी० की चादरों से बने बर्तन।	13.70 रु० (केवल तेरह रुपये सत्तर पैसे) प्रति कि० ग्रा०

1	2	3
(ii) पूर्णतया अचुम्बकीय स्टेनलैस स्टील की 22 से 26 बी० जी० की चादरों से बने बर्तन।		35.80 रु० (केवल पैंतीस रुपये अस्सी पैसे) प्रति किलोग्राम
(ख) (ii) पूर्णतया अचुम्बकीय स्टेनलैस स्टील के 18 से 21 बी० जी० की चादरों से बना, अस्पताल में उपयोग में लाया जाने वाला सामान जैसे किडनी ट्रे, बेड, पैन्स, धूकदान आदि।		13.70 रु० (केवल तेरह रुपये सत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम
(ii) पूर्णतया अचुम्बकीय स्टेनलैस स्टील की 22 से 26 बी० जी० की चादरों से बना अस्पताल में उपयोग में लाया जाने वाला सामान, जैसे किडनी ट्रे, बेड, पैन्स, धूकदान आदि।		35.80 रुपये (केवल पैंतीस रुपये अस्सी पैसे) प्रति कि० ग्रा०
(ग) (i) अचुम्बकीय स्टेनलैस स्टील की 18 से 21 बी० जी० की चादरों और तांबे से बने वे बर्तन जिनके तले तांबे के हों।		12.20 रु० (केवल बारह रुपये दोस पैसे) प्रति किलोग्राम
(ii) अचुम्बकीय स्टेनलैस स्टील की 22 से 26 बी० जी० की चादरों और तांबे से बने वे बर्तन जिनके तले तांबे के हों।		30.50 रु० (केवल तीस रुपये पचास पैसे) प्रति किलोग्राम
(घ) (i) पूर्णतया कोल्ड रोल्ड स्टेनलैस स्टील की 26 बी० जी० से 29 बी० जी० की पट्टियों से बने शिष्टियों के स्ट्रैप।		48.20 रु० (केवल अड़तालीस रुपये बीस पैसे) प्रति किलोग्राम
(ii) पूर्णतया कोल्ड रोल्ड स्टेनलैस स्टील की 30 बी० जी० से 32 बी० जी० की पट्टियों से बने शिष्टियों के स्ट्रैप।		27.95 रु० (केवल सत्ताईस रुपये पचानव पैसे) प्रति किलोग्राम
(ङ) शल्य चिकित्सा के उपकरण		0.50 रु० (केवल पचास पैसे) प्रति किलोग्राम
(च) स्टेनलैस स्टील की चादरों से बनी कटलरी परन्तु चाकूओं को छोड़ कर।		बांड दर, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता के आवेदन किए जाने पर नियम की जानी है।
(छ) स्टेनलैस स्टील की छड़ों/मलाकाओं/प्लेटों से बनी कटलरी।		0.45 रु० (केवल पैंतालीस पैसे) प्रति किलोग्राम
(ज) चाकू		0.45 रु० (केवल पैंतालीस पैसे) प्रति किलोग्राम
(झ) स्टेनलैस स्टील की चादरों से बनी अन्यथा अविनिविष्ट वस्तुएं—		
(i) (क) 14 और 16 बी० जी० की चुम्बकीय चादरों से निर्मित।		बांड दर, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता के आवेदन किए जाने पर नियम की जानी है।

1	2	3
(ख) 18 से 21 बी० जी० की	13.70 रु० (केवल तेरह रुपये	
अचुम्बकीय चावरो से निर्मित।	सत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम	
(ग) 22 से 26 बी० जी० की	35.80 रु० (केवल पैंतीस रुपये	
अचुम्बकीय चावरो से निर्मित।	अस्सी पैसे) प्रति किलोग्राम	
(ii) अन्य	0.40 रु० (केवल चालीस पैसे)	
	प्रति किलोग्राम	

टिप्पणी :—उपर्युक्त खंड (1) की मव (1) की उप मव (ख) और (ग) के सामने प्रतिप्रवायणी की दर उन स्टेनलेस स्टील की ट्यूबों पर लागू नहीं होगी जिनके निर्माण में स्टेनलेस स्टील की प्लेटों, चावरो और पट्टियों पर, सीमा शुल्क की अधिसूचना सं० 152/77 दिनांक 15-7-77 के साथ अनु-खंड सारणी की क्र० सं० 1 की मव (क) और (ख) के अनुसार सीमा शुल्क मूल्यानुसार 45 प्रतिशत की निम्नतर दर पर लगता है।

यह सार्वजनिक सूचना प्रचलित, 1977 के 15वें दिन को लागू हुई मानी जाएगी।

के० सी० ममगार्न, अवर सचिव

No. DRAWBACK/PN-12/78.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F.No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India—Extra-ordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971, as amended from time to time :—

For sub-serial No. 3804 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

Sub-Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback
1	2	3
3804	Articles made of stainless steel —	
	(A)(i) Utensils made wholly of non-magnetic stainless steel sheets of 18 to 21 BG.	Rs. 13.70 (Rupees thirteen and paise seventy only) per kg.
	(ii) Utensils made wholly of non-magnetic stainless steel sheets of 22 to 26 BG.	Rs. 35.80 (Rupees thirty five and paise eighty only) per kg.
	(L)(i) Hospital ware made wholly of non-magnetic stainless steel sheets of 18 to 21 BG such as kidney trays, bed pans, sputum mugs etc.	Rs. 13.70 (Rupees thirteen and paise seventy only) per kg.
	(ii) Hospital ware made wholly of non-magnetic stainless steel sheets of 22 to 26 BG such as	Rs. 35.80 (Rupees thirty five and paise eighty only) per kg.

	kidney trays, bed pans, sputum mugs etc.	
(C)(i)	Copper bottomed utensils made of non-magnetic stainless steel sheets of 18 to 21 BG and Copper.	Rs. 12.20 (Rupees twelve and paise twenty only) per kg.
(ii)	Copper bottomed utensils made of non-magnetic stainless steel sheets of 22 to 26 BG and Copper.	Rs. 30.50 (Rupees thirty and paise fifty only) per kg.
(D)(i)	Watch straps made wholly of cold rolled stainless steel strips of 26 BG to 29 BG.	Rs. 48.20 (Rupees forty eight and paise twenty only) per kg.
(ii)	Watch straps made wholly of cold rolled stainless steel strips of 30 BG to 32 BG.	Rs. 27.95 (Rupees twenty seven and paise ninety-five only) per kg.
(E)	Surgical instruments.	Rs. 0.50 (Paise fifty only) per kg.
(F)	Cutlery made of stainless steel sheets but excluding knives.	Brand rates to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
(G)	Cutlery made of stainless steel bars/rods/plates	Rs. 0.45 (Paise forty-five only) per kg.
(H)	Knives.	Rs. 0.45 (Paise forty-five only) per kg.
(I)	Articles made of stainless steel sheets not otherwise specified—	
(i) (a)	made of sheets, magnetic of 14 and 16 BG.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
(b)	made of sheets, non-magnetic of 18 to 21 BG	Rs. 13.70 (Rupees thirteen and paise seventy only) per kg.
(c)	made of sheets, non-magnetic of 22 to 26 BG	Rs. 35.80 (Rupees thirty five and paise eighty only) per kg.
(ii)	Others	Rs. 0.40 (Paise forty only) per kg.

Note:—The drawback rate against sub-item (b) and (c) of item (i) of clause (I) above shall not be applicable to stainless steel tubes, in the manufacture of which stainless steel plates, sheets and strips chargeable to lower rate of Customs duty @ 45 per cent ad valorem vide item (a) and (b) of the serial No. 1 of the Table annexed to Customs Notification No. 152/77 dated 15-7-1977 have been used.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 15th day of October, 1977.

K.C. Mangain, Under Secy.